



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

28 ज्येष्ठ 1947 (श10)

(सं० पटना 1115) पटना, बुधवार, 18 जून 2025

खान एवं भूतत्व विभाग

अधिसूचना

17 जून 2025

सं० 02/एम0एम0-(बा0)-30/21-3260/एम0—बालू के निक्षेपों के सही निर्धारण एवं मॉनसून के उपरांत बालू की मात्रा के आकलन हेतु वैज्ञानिक तरीके से नदियों का पुनर्भरण अध्ययन आवश्यक है। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा बालू खनन के संबंध में निर्गत प्रवर्तन और निगरानी मार्गदर्शिका-2020 (EMGSM-2020) में भी नदियों का वैज्ञानिक तरीके से पुनर्भरण अध्ययन कराया जाना अनिवार्य है।

2. बालू खनन के लिए सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्त के अनुसार पुनर्भरण अध्ययन बालू बंदोबस्तधारी द्वारा कराया जाना है। निविदा दस्तावेज में उल्लेखित शर्त के अनुसार बंदोबस्तधारी द्वारा मानसून के पहले और बाद पुनर्भरण अध्ययन (Replenishment Study) अद्यतन तकनीक द्वारा भारत सरकार से मान्यता प्राप्त संस्थानों से कराना है। बंदोबस्तधारी द्वारा आंकड़ों में बदलाव कराने की संभावना है, जिससे राजस्व प्रभावित हो सकता है। अतएव राज्य के प्रमुख नदियों का पुनर्भरण अध्ययन विभाग द्वारा कराया जाना आवश्यक है।

3. प्रवर्तन और निगरानी मार्गदर्शिका-2020 में निर्धारित प्रक्रिया के तहत पुनर्भरण अध्ययन विशिष्ट मान्यता प्राप्त संस्थानों द्वारा आधुनिक तकनीक से ही कराया जा सकता है। मान्यता प्राप्त प्रतिष्ठान के चयन में विशिष्टता, गुणवत्ता एवं अनुभव के आलोक में सेंद्रल माइन प्लानिंग एण्ड डिजाइन इंस्टीच्यूट लि० के माध्यम से पुनर्भरण अध्ययन कराये जाने के लिए पंचांग वर्ष 2025 के लिए पुनर्भरण अध्ययन का दर ₹2,58,61,352/- (रुपये दो करोड़ अंठावन लाख इकसठ हजार तीन सौ बावन मात्र) का शुल्क देय है।

4. पंचांग वर्ष 2025 में राज्यान्तर्गत 05 प्रमुख नदियों यथा—सोन, कियूल, फल्गू, मोरहर एवं चानन नदी का पुनर्भरण अध्ययन (Replenishment Study) हेतु बिहार वित्त (संशोधन) नियमावली-2024 के नियम-131 ज्ञ(छ) के तहत नामांकन के आधार पर सेंट्रल माइन प्लानिंग एण्ड डिजाइन इंस्टीच्यूट लि० (CMPDI) से कराने हेतु राशि ₹2,58,61,352/—(रूपये दो करोड़ अंठावन लाख इकसठ हजार तीन सौ बावन मात्र) की स्वीकृति दी जाती है।

5. प्रस्ताव में मंत्रिपरिषद की स्वीकृति प्राप्त है।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,  
भारत भूषण प्रसाद,  
सरकार के अपर सचिव।

---

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,  
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।  
बिहार गजट (असाधारण) 1115-571+100-डी०टी०पी०।  
Website: <https://egazette.bihar.gov.in>